

कुल पुस्तक संख्या 100 (सहित)

क्रम संख्या

1178624



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)



भाग में अपना नामांक नही लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐

विषय Accountancy लेखाशास्त्र

परीक्षा का दिन Saturday

दिनांक 09/03/2024

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 1/4 को 16, 17 1/2 को 18, 19 3/4 को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	15	19	3
2	7	20	4
3	10	21	4
4	2	22	4
5	2	23	1
6	2	24	1
7	2	25	1
8	2	26	1
9	2	27	1
10	2	28	1
11	2	29	1
12	2	30	1
13	2	31	1
14	2	योग	80
15	2	प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16	3	अंकों में	शब्दों में
17	3	80	अस्सी
18	3		


परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतांक

34635

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज हो उपयोग में लिया गया है। 175/2023

1208711



परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटे।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहीं गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा, किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटे।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।



1

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Section - A

① Ans:

(i) (स) साझेदारों के ऋणों पर कयाज

(ii) (ब)

(iii) (ब) 1:2

(iv) (द) अ व ल दोनों

(v) (स) पुनर्मुल्यांकन खाता

(vi) (अ) आधि - अभिदान

(vii) (द) 1800 shares

$$\frac{198000}{110} = 1800$$

(viii) (स) वॉइल (वंधपत्र)

(ix) (ब) ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि खाते में

(x) (ब) 20,000 ₹

$$\frac{180000}{90} = 20,000$$

(xi) (द) चालू दायित्व



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

1 (xii) (ब) 2%

1 (xiii) (अ) कौष प्रवाह

1 (xiv) (स) ₹ 7000

Dr.		Provision for Tax A/c		Cr.
To Bank A/c	7000	By Balance b/d	10000	
(B.F.)		By Statement of P/L	12000	
To Balance c/d	15000			
	22,000			22,000

1 (xv) (स) मूल्य-क्षय

② Ans. (i) संचित लाभों तथा संचयों को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में वितरित किया जाता है।

(ii) विव्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त साझेदार के भाग का अधिग्रहण करेंगे अधिलाभ (कायदे) का अनुपात कहलाता है।

(iii) एकल व्यक्ति कम्पनी की प्रदत्त पूंजी ₹ 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है।

(iv) एक कम्पनी स्वेट समता अंशों को बढ़ते पर निर्गमन कर सकती है।



(v) वाहक न्यूनपत्र, वे न्यूनपत्र हैं, जो सुपुर्दगी के द्वारा हस्तान्तरित किए जा सकते हैं।

(vi) प्रतिभूति प्रीमियम लंचर → अंशधारी कोष Major Head

(vii) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार बुलन-पत्र बनाया जाता है।

③ Ans:

(i) साझेदारों के मध्य लिखित समझौता, साझेदारी संलेख कहलाता है।

(ii) Sacrificing Ratio = Old Ratio - New Ratio
Bhavesh's Sacrificing Ratio = $\frac{3}{5} - \frac{2}{5}$

$$\left(\begin{array}{l} \because \text{old Ratio} = 3:2 \\ \text{New Ratio} = 2:2:1 \end{array} \right) = \frac{3-2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\text{Raju's Sacrificing Ratio} = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0$$

$$\text{Sacrificing Ratio} = (1:0) \text{ or } (1:0)$$

अतः केवल भावेश ही, सोनू (नये साझेदार) के प्रवेश पर भाग कर रहा है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$(iii) \quad X : Y : Z \\ 2 : 3 : 4$$

$$Z's \text{ share} = \frac{4}{9}$$

Z's share in revaluation loss =

$$81000 \times \frac{4}{9} = ₹ 36000 \text{ Ans.}$$

अतः Z का पूनमूल्यीकरण हानि में ₹ 36000 का हिस्सा है।

(iv) साझेदार की मृत्यु की दशा में, पुस्तकों में विद्यमान सामान्य संचय को पुराने अनुपात में सभी साझेदारों के मध्य वितरित किया जाता है।

$$(v) \quad \begin{aligned} \text{आवेदन पर प्राप्त कुल राशि} &= ₹ 45,600 \\ \text{आवेदन की राशि} &= ₹ 4 \\ \text{आवेदकों की संख्या} &= \frac{\text{प्राप्त कुल राशि}}{\text{अंश की दर}} \end{aligned}$$

$$= \frac{45,600}{4}$$

$$\boxed{\text{आवेदकों की संख्या} = 11400} \text{ Applicants}$$

$$(vi) \quad \begin{aligned} 12000 \text{ आवेदकों को } 8000 \text{ आवंटन} \\ 1500 \text{ आवेदन को } x \text{ आवंटन} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12000 &- 8000 \\ 1500 &- x \quad (\text{Cross multiply}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 12000x = 8000 \times 1500$$



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$\text{अ} = \frac{8000 \times 1500}{12000}$$

$$\text{अ} = 1000$$

अतः 1500 आवेदकों को 1000 अंश आवंटित किए जाएंगे।

(vii) शौच्यन की दृष्टिकोण से ऋणपत्रों के दो प्रकार
शौच्यनीय ऋणपत्र, अशौच्यनीय ऋणपत्र

(viii)	चिह्न की मद	Major Head	Sub Head
	Debentures	Non-current liabilities	Long term Borrowing
	(ऋणपत्र)	(गैर-चालू दायित्व)	(दीर्घकालीन ऋण)

(ix) ऋणपत्रों के समपाश्चिक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में, यदि प्रविष्टि की जाती है, तो Debenture suspense A/c को अ. किया जाएगा।

(x) वित्तीय विवरणों के दो उपव्योक्त -
 ↳ अंशधारी
 ↳ बैंक व वित्तीय संस्था

(10)

Turnover →



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Section - 'B'

④ Ans →

$$\text{Total Drawing} = 5000 \times 12 \\ = 60,000$$

$$\text{Rate of Interest} = 12\%$$

$$\text{Interest on Drawing} = \frac{\text{Total Drawing} \times \text{Rate of Interest}}{100} \\ = \frac{60,000 \times 12 \times 5.5}{100 \times 12}$$

$\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 2$

②

$$\text{Interest on Drawing} = 3300 \text{ ₹}$$

⑤ Ans → Capital Employed = 400,000

$$\text{NRP} = 10\%$$

$$\text{Average profit} = 50,000$$

$$\text{Goodwill} = \text{Super profit} \times 3 \\ = 10,000 \times 3$$

$$\text{Goodwill} = 30,000 \text{ ₹}$$

$$\text{Super profit} = \text{Average profit} - \text{Normal} \\ = 50,000 - 40,000$$

$$\text{Super profit} = 10,000$$

$$\text{Normal profit} = \frac{\text{Capital Employed} \times \text{NRP}}{100} \\ = \frac{400,000 \times 10}{100}$$

$$\text{Normal profit} = 40,000$$

$\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 2$

②



⑥ Ans. → Ram's share of Capital = 35000
 Ram's share in profits = $\frac{1}{3}$

$$\text{Total firm Capital} = 35000 \times 3$$

$$= 105000 (1,05,000)$$

$$\text{Sum of partner's Capital} = 35000 + 25000 + 35000$$

(Kartik + prakash + Ram)

$$= 95000$$

$$\text{Hidden Goodwill} = \text{Total firm Capital} - \text{Partner's Capital (sum of)}$$

$$= 1,05,000 - 95000$$

$$\text{Hidden Goodwill} = 10,000$$

⑦ Ans. → कागड़े (अभिलाष) के अनुपात की गणना किसी साझेदार की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर की जाती है।
 इसकी गणना का सूत्र -

$$\text{Gaining Ratio} = \text{New Ratio} - \text{Old Ratio}$$

⑧ Ans. → ^{Note} Working Capital -

$$\text{G.R.} \rightarrow 22000 \times \frac{2}{9} = 6000 \text{ (B)}$$

$$22000 \times \frac{3}{9} = 9000 \text{ (V)}$$

$$17000 \times \frac{4}{9} = 12000 \text{ (S)}$$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Journal Entries

Date	Particulars	%	Amount	
			Debit	Credit
	General Reserve A/c Dr.		27000	
	To Balmukund's Capital A/c			6000
	To Vineet's Capital A/c			9000
	To Sudhansu's Capital A/c			12000
	(Being Existing General Reserve distributed among partners)			

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

⑨ Ans. Note
Working Capital

I. Shiv's share of Goodwill =

$$56000 \times \frac{3}{8} = 21000$$

II. Remaining partner's who is gain something
compensate to Retiring partner.

Nandu's Capital A/c Dr.

Journal Entry

Date	Particulars	%	Amt.	
			Debit	Credit
	Nandu's Capital A/c Dr.		12,600	
	Mohan's Capital A/c Dr.		8400	
	To Shiv's Capital A/c			21000
	(Being Retiring partner compensate to Retiring partner in their gain ratio.)			

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$$



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

10) Ans.

Journal Entry

Date	Particulars	Yr	Amount	
			Debit	Credit
	Realisation A/c Dr.		10,000	
	To partner's Capital A/c			10,000
	(Being Unrecorded Liability paid by a partner)			

1+1
= 2

11) Ans.

अधि-अभिदान :- जब निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उसे अधि-अभिदान कहा जाता है।

न्यून-अभिदान :- जब निर्गमित अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो उसे न्यून-अभिदान कहा जाता है।

1+1
= 2

12) Ans.

Journal Entries

Date	Particulars	Yr	Amount	
			Debit	Credit
	Securities premium Reserve A/c Dr.		45000	
	Statement of profit & loss A/c Dr.		5000	
	To Discount on issue of Debenture A/c			50,000
	(Being Discount on issue of Debenture written off By S.P.R and statement of P/L A/c)			

1+1+1+1
= 4



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीवार्षी उत्तर

Note
Working Capital -

Discount on issue of Debenture =

$$5000 \times 10 = 50000$$

(13) Ans.

Number of Issued Debenture = $\frac{\text{Amount payable}}{\text{Issuing price}}$

$$= \frac{190,000}{95}$$

Number of Issued = 2000
Debenture

Working Note -

purchase consideration - Bank payment

$$200,000 - 10000 = 190,000$$

Is Amount payable

1 1/2 + 1/2

(2)

Discount = 5% of Issuing price
Face Value = 100 } 295

(14) Ans. Quick Ratio = 2:1

Quick Ratio = $\frac{\text{Quick/Liquid Asset}}{\text{Current Liabilities}}$

$$2 = \frac{240,000}{\text{Current Liabilities}}$$

$$2 \text{ Current Liabilities} = 240,000$$

$$\text{Current Liabilities} = \frac{240,000}{2}$$



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Current liabilities = 120,000

Current Asset = Quick/Liquid Asset + Inventory
= 240,000 + 60,000

Current Assets = 300,000

(15) Ans. Books of Yuvraj Limited

Cash flow from operating Activity

Particulars	Details	Amount
Net profit	74,000	
Adjustment of non-cash items:		
Add: Depreciation	26,000	
Cash generated from operating Activity	100,000	100,000
less: Income Tax	20,000	
Net Cash flow from operating Activity		80,000

अतः परिचालन क्रियाओं द्वारा रोड का अन्तर्वदि ₹ 80,000 का।

Section - C

(16) Ans. Working Note :- Adjustment Table

Particulars	Vinod	Komal	Total
Interest on capital Cr.	24,000	26,000	50,000
Loss Dividend into their profit sharing Ratio Dr.	20,000	30,000	50,000
Net Effect →	4,000 Cr.	4,000 Dr.	NIL

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Adjustment Entry

Date	Particulars	Q	Debit	Credit
	Komal's Current A/c Dr.		4000	
	To Vinod's Current A/c			4000
	(Being Adjustment Entry Passed)			

1+2
(3)

(17) Ans.

Journal Entries

Date	Particulars	Q	Debit	Credit
(i)	Ganesh's Capital A/c Dr.		5000	
	To Realisation A/c			5000
	(Being unrecorded typewriter of ₹ 5000 is taken by a Partner Ganesh)			
(ii)	(No Entry will be pass)			
(iii)	Realisation A/c Dr.		25000	
	To Bank A/c			25000
	(Being Realisation Expenses paid)			

1+1+1
(3)



18) Ans. Stock Turnover Ratio = 6 Times

$$\text{Stock turnover Ratio} = \frac{\text{Cost of Revenue from operation}}{\text{Average Inventory}}$$

$$\frac{6}{1} = \frac{\text{Cost of Revenue from operation}}{80000}$$

$$\text{Cost of Revenue from operation} = 80000 \times 6$$

$$\text{COGS} = 480,000$$

$$\text{Sale} = \text{Cost of Revenue from operation} \times \frac{25}{100}$$

$$\text{लागत मूल्य 25\%} = 120,000$$

$$\text{Sale} = \text{COGS} + 120000$$

$$\text{Sale} = 600,000$$

$$\text{Sale} - \text{COGS} = \text{Gross profit}$$

$$600,000 - 480,000 = 120000$$

$$\text{Gross profit} = 120,000$$

19) Ans.

List A

List B

i) Sale of goods to customers

a) Financing Activity

ii) Receipts from interest and Dividend

b) Operating Activity

iii) Redemption of Debentures

c) Investing Activity

1+1+1

3

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Section - 'D'22 Ans.Books of Rajveer Limited
Journal Entries

Date	Particulars	%	Debit	Credit
i)	Bank A/c Dr.		1,20,000	
	To Debenture Application & Allotment A/c			1,20,000
	(Being Application & Allotment money Received)			
	Debenture Application & Allotment A/c Dr.		1,20,000	
	To 9% Debentures A/c			1,20,000
	To premium on Redemption A/c			24,000
	(Being App. & Allo. money transfer to 9% Debentures A/c and Redemption Effect shown)			
ii)	Bank A/c Dr.		1,35,000	
	To Debenture Application & Allotment A/c			1,35,000
	(Being Application & Allotment money Received)			

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Debiture Application & Allotment A/c Dr.	1,35,000	
Discount on issue of Debiture A/c Cr.	15,000	
Loss on issue of Debiture A/c Cr.	7,500	
To 8% Debitures A/c		1,50,000
To premium on Redemption A/c		7,500
(Being Application money transfer and Redemption effect shown in this entry)		

Working Note -

$$I. 100 \times 20\% \text{ premium} = 20\%$$

$$1200 \times 20 = 24000$$

$$II. 100 \times 10\% \text{ Discount} = 15\%$$

$$1000 \times 15 = 15000$$

$$\frac{150 \times 5}{100} = 7.5$$

$$1000 \times 7.5 = 7500$$

(21) Ans.

Books of Rangoli Limited

Journal Entries

Date	Particulars	Lf	Debit	Credit
(1)	Bank A/c Dr.		27000	
	To Equity share Application A/c			27000
	(Being Application money Received)			



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
	②	Equity share Application A/c Dr. 22000 To Share Capital A/c 22000 (Being Application money transfer to Share Capital A/c)
	③	Equity share Allotment A/c Dr. 54000 To Equity Share Capital A/c 50000 To Securities Premium Reserve 4000 (Being Allotment money due)
	④	Bank A/c Dr. 54800 To Equity share Allotment A/c 54000 To Calls in advance 800 (Being Allotment money Received and a shareholder of 400 shares paid calls in advance.)

$$\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 4$$

$$5 + 1 + 5 + 1 = 12$$

20

Ans.

Journal Entries

Date	Particulars	Y/F	Debit	Credit
①	Asset A/c Dr To Revaluation A/c (Being increase in the value of an asset.)		xx	xx

Turnover →



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर		
	2	Liabilities A/c Dr. To Revaluation A/c (Being reduction in the value of liabilities)	xx	xx
	3	Revaluation A/c Dr. To Unrecorded Liability (Being unrecorded liability now recorded)	xx	xx
	4	Unrecorded Asset A/c Dr. To Revaluation A/c (Being unrecorded Asset now recorded)	xx	xx
	5	Old partner's Capital A/c Dr. To Revaluation A/c (Being Revaluation loss transfer to old partner's Capital A/c)	xx	xx

$\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 1$
= 4

समाप्त !! finish !!

80

सिपाही

1/4/2024



परीक्षार्थी उत्तर

BSER-175/2023



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-17/5/2023



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
-------------------------------	------------------	-------------------

BSER-17/5/2023



23

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-175/2023



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
-------------------------------	------------------	-------------------

HSER-173/2023



25

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSEK-175/2023



परीक्षार्थी उत्तर



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-175/2023

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$60000 \times \frac{22}{100} \times \frac{36.8}{12}$$

$$\frac{200,000}{10,000} \times 17,000$$
$$\frac{190,000}{95}$$

$$33000$$

$$100 \times \frac{11}{100}$$

$$\frac{190,000}{95} \times \frac{200}{1.9}$$

Deb.
Disbursements
LessonsTo 87.000
in profit

$$7.5 \times 1000$$
$$25000$$

$$150 \times \frac{5}{10}$$

$$\frac{17}{22}$$
$$3$$

$$\frac{35}{105}$$

$$\frac{48}{25}$$
$$\frac{28}{10}$$

$$\frac{45}{134}$$
$$\frac{45}{134}$$
$$\frac{45}{134}$$

$$24000$$

$$74$$

$$\frac{74}{26}$$

$$480000 \times \frac{21}{100}$$

$$\frac{25}{35}$$
$$\frac{25}{35}$$
$$\frac{25}{35}$$

$$\frac{74}{20}$$
$$\frac{20}{100}$$

$$80000$$

$$5000 \times \frac{101}{100}$$

$$5000 \times \frac{10}{100}$$

$$5000 \times 10$$
$$50000$$

$$\frac{105}{95}$$
$$\frac{105}{95}$$
$$\frac{105}{95}$$

Bank M/c

$$150000$$

To Deb. App. & M/c in hand - 120000

$$\frac{105}{95}$$
$$\frac{105}{95}$$
$$\frac{105}{95}$$

$$24000 \times \frac{21}{100}$$
$$4200$$
$$12600$$

$$20000 \times \frac{21}{100}$$
$$42000$$

Deb App. M/c in hand (20000)
To Deb. (20000)
To P/B in hand

$$\frac{1200}{20}$$
$$\frac{1200}{20}$$
$$\frac{1200}{20}$$

$$\frac{1200}{20}$$
$$\frac{1200}{20}$$
$$\frac{1200}{20}$$

$$\frac{10000}{3}$$

